

Date: 31st May, 2024

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001

**Scrip Code: 517214** 

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

Scrip Code: DIGISPICE

Sub.: Newspaper advertisement regarding the Postal Ballot Notice

Dear Sir/Madam,

In continuation to our earlier letter dated 30<sup>th</sup> May, 2024 regarding submission of Postal Ballot Notice (the 'Notice'), we wish to inform you that the Company has completed sending of Notice on 30<sup>th</sup> May, 2024 to the Members whose name was appearing in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 24<sup>th</sup> May, 2024 ('Cut- off date'), at their email addresses, registered with the Depository Participants/Depositories, (in case of electronic shareholding)/the Company's Registrar and Transfer Agents (in case of physical shareholding).

We are enclosing the copies of newspaper clips published in 'Financial Express' (English Edition) and 'Jansatta' (Hindi Edition) on Wednesday, 31st May, 2024 on the above mentioned subject.

The said copies will also be made available on the website of the Company at <a href="https://www.digispice.com">www.digispice.com</a>.

Kindly take the above information on record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you.

Yours faithfully,

For DiGiSPICE Technologies Limited

Ruchi Mehta Company Secretary & Compliance Officer

Encl: - a/a

Email ID: complianceofficer@digispice.com; Website: www.digispice.com

### FINANCIAL EXPRESS

## SUYOG GURBAXANI FUNICULAR ROPEWAYS LIMITED

CIN: L45203MH2010PLC200005

18, Suyog Industrial Estate, 1st Floor, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra, India, 400083. Tel No.: 022- 25795516/ 25778029 | Email: sgfrpl@gmail.com | Web: www.sgfrl.com

### STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR & YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

Sr.		i	INR in Hundred	's, Except Earnin	ng per Shares	
			Half Year ended	Year ended		
No.	Particulars	March 31, 2024			March 31, 2024	March 31, 2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operation	Y				
	(a) Revenue from Operations	52,02,082.58	11,09,810.93	11,74,272.79	63,11,893.51	18,00,569.75
	(b) Other Income	4,996.27	46.26	(13,601.23)	5,042.53	2,003.45
	Total Income	52,07,078.86	11,09,857.18	11,60,671.56	63,16,936.04	18,02,573.20
11.	Total Expenses	46,68,731.09	8,64,230.75	10,69,688.09	55,32,961.84	18,01,743.07
III.	Profit / (Loss) from operations before exceptional	8	12	2"	-	
IV.	Profit Before Tax ( III - IV )	5,38,347.76	2,45,626.44	90,983.47	7,83,974.20	830.13
V.	Profit/(Loss) for the period	5,08,431.11	2,78,389.94	1,21,544.61	5,58,527.77	31,391.27
VI,	Paid-up equity share capital	24,86,222.20	24,86,222.20	24,86,222.20	24,86,222.20	24,86,222.20
VII.	Face value of equity share capital	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
VIII.	Earning per Equity shares				92	
(1)	Basic earnings per equity share	2.04	1.12	0.49	2.25	0.13
(2)	Diluted earnings per equity share	2.04	1.12	0.49	2.25	0.13

- The above Standalone results have been reviewed by Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on May 30th, 2024. The Report of Statutory Auditors is being filed with the Bombay Stock Exchange and the same is available on Company's website.
- The Company has been awarded the work to design, engineer, procure, finance, construct, operate and maintain Funicular Ropeway on Build, Operate & Transfer (BOT) basis at Saptashrungi Gad, Vani, Kalwan, Nashik, and to charge and collect the toll fees as per Concession Agreement dated 12.01.2010, executed with Government of Maharashtra, Public Works Department, and in the Managements Opinion this is the only segment and hence there are no separate reportable segment as per AS-17 on "Segment Reporting"
- These results have been prepared in accordance with SEBI Listing Regulations and SEBI Circulars issued from time to time, applicable Accounting Standards and Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- As mentioned in the note 2, company has also taken work contract in the same segment for Malang Gadh in Thane District of Maharashtra and the work in progress ensuring complition of work till the end of September-2024 for that unbilled Revenue is booked as per IND AS.
- Previous year figure has been rearranged / regrouped wherever necessary, to correspond with those of the current periods's classification.
- The above results of the Company are available on the Company's website www.sgfrl.com and also on www.bseindia.com.

For & on behalf of Board of Directors Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Limited

Rajkumar Gurbaxani Chairman/ Whole-time Director

DIN: 00324101

Date: May 30th, 2024 Place: Nagpur

# CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED

Registered Office: 80, Burtolla Street, Kolkata - 700007, West Bengal, India | Phone: +91-77199 13351 E-mail ID: cinerad@gttsolutions.in | Website: www.cineradcommunications.com

### Extract of Audited Consolidated Financial Results for the year ended March 31, 2024

(₹ in Lakhs) Quarter ended Quarter ended Year ended **Particulars** March 31, 2024 March 31, 2024 March 31, 2023\*

1.	Revenue from Operations	72.630	1399.078	NA
2.	Profit / (loss) before exceptional item and tax	(1443.911)	(137,209)	NA
3.	Profit / (loss) before tax	(1443.911)	(137.209)	NA
4.	Profit / (loss) after tax	(1377.862)	(71.160)	NA
5.	Total comprehensive income for the period	(1377,862)	(71,160)	NA
6.	Paid-up equity share capital (Face Value: ₹ 10 each)	1916.192	1916.192	NA
7.	Total reserves	0	(233.630)	NA
8	Earnings per equity share: 1. Basic: 2. Diluted:	(7.109) (7.109)	(0.289) (0.289)	NA NA

considering 13th March, 2024 as the date of acquisition. Hence, no previous year figures have been reported since this is the first year of acquisition of any subsidiary.

### Extract of Audited Standalone Financial Results for the year ended March 31, 2024

				65.711.
Sr. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2024	Year ended March 31, 2024	Quarter ended March 31, 2023
1.	Revenue from Operations	0	0	0
2.	Profit / (loss) before exceptional item and tax	(12.04)	(17.88)	(1.03)
3.	Profit / (loss) before tax	(12.04)	(17.88)	(1.03)
4	Profit / (Ince) after tay	(18.61)	(24.45)	(1.47)

Total comprehensive income for the period

- The audited financial results (standalone and consolidated) have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 29, 2024. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of three month and year ended March 31, 2024, are available on the BSE website at www.bseindia.com and on the company's website at www.cineradcommunications.com

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Kolkata Date: May 29, 2024 Pankaj Ramesh Samani Managing Director Din: 06799990

## NAKSH PRECIOUS METALS LIMITED

(Formerly known as VAKSONS AUTOMOBILES LIMITED)

Regd. Office: 105, 1st Floor, Barodia Tower, Plot No.12, D Block Central Market Prashant Vihar, New Delhi -110085. Corporate Office: A-Block, Shubham Garden Complex Murthal Road Sonipat, Haryana -131001

Tel.: 0130 - 2218572 | Fax: 0130 - 2218572 | CIN: L51502DL2003PLC119052 Website: www.nakshmetals.com | Email: info@nakshmetals.com

### Extract of the Audited Financial Results for the Quarter/Year ended

31st	March,	2024

(₹ in Lakhs) **AUDITED RESULTS** Quarter ended Year ended **Particulars** 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 (Unaudited) (Audited) (Audited) 39.75 3.00 11.23 50.25 18.51 1 Total income from operations 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. (4.57)(5.16)0.57 0.685.16 Exceptional and/or Extraordinary items) 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 0.57 (4.57)0.68 5.16 (5.16)Exceptional and / or Extraordinary items) 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 3.87 0.68 4.75 3.28 0.16 Exceptional and / or Extraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the period 3.87 3.28 (Comprising Profit/Loss for the period after tax) and 0.68 4.75 0.16 Other Comprehensive Income (after tax) 1052.05 1052.05 6 Equity Share Capital 1052.05 1052.05 1052.05 7 | Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -0.00 0.04 0.05 0.03 0.012. Diluted: 0.04 0.01 0.05 0.03 0.00

Place: New Delhi

Date: May 29, 2024

- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") 34 interim. Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.
- The Audit Committee has reviewed the above results and the Board of Directors has approved the above results and its release at their respective meetings held on May 29, 2024.
- 3. The IND-AS Compliant financial results pertaining to the year ended on March 31, 2024 have not been subject to Limited Review by the Statutory Auditors. However, the Management has exercised necessary due diligence to ensure that such financial results provide a true and fair view of its affiars. 4. The company disposed of its investment in Vaksons Metaplast Private Limited on March 31, 2024. Consequently, as on
- date, the company no longer has any subsidiaries. Therefore, it is not required to prepare consolidated financial results for the year ended March 31, 2024. 5. The Company has single reportable business segment. Hence, no separate information for segment wise disclosure is
- given in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 108 "Operating Segments". 6. The figures for the corresponding previous period have been regrouped/ reclassified wherever necessary, to make
- (https://www.nakshmetals.com/investor-relations.html)
- The aforesaid Quarter and Yearly Financial Results are also being disseminated on the website of the Company i.e.

For, Naksh Precious Metals Limited (Formerly known as Vaksons Automobiles Limited) Sneha Vispute

**Managing Director** 

BF UTILITIES LIMITED

Regd. Off.: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune-411036 CIN: L40108PN2000PLC015323 Tel: 91 7719004777 Email: secretarial@bfutilities.com Website: www.bfutilities.com

Extract of Statement of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31 March, 2024

Sr.	Particulars	Quarter ended 31" March, 2024	Quarter ended 31" March, 2023	Year ended 31" March, 2024	Year ended 31" March, 2023
No.		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	237.88	204.52	1,939.76	1,802.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	1,324.10	(71.33)	1,368.61	676.74
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	1,324.10	(71.33)	1,368.61	676.74
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	937.53	(102.06)	1,008.71	577.20
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	936.13	(104.64)	1,018.89	583.03
6	Equity Share Capital (of Rs. 5/- each)	1,883.38	1,883.38	1,883.38	1,883.38
7	Earning Per Share (Not Annualised for Quarters)	10.700 (0.00)	13.17 PM (10.00	313000000000000000000000000000000000000	70.00 NO 100 P (21) N. 1
	Basic:	2.49	(0.27)	2.68	1.53
	Diluted:	2.49	(0.27)	2.68	1,53

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company website www.bfutilities.com. For BF Utilities Limited

B S Mitkari Place: Pune Whole-Time Director Date : 30 May, 2024 DIN: 03632549

HIM TEKNOFORGE LIMITED

(Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited) CIN: L29130HP1971PLC000904

Registered Office: Vill Billanwali, Baddi – 173205, Distt: Solan (H.P) Telephone No.:+91(1795)654026 Fax No.:+91(1795) 245467 E-mail: gujarat.gears@gmail.com, Website: www.himteknoforge.com

> EXTRACT FROM STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2024

(Rs. in Lacs) Except EPS

(₹ in Lakhs)

Quarter Quarter Quarer Year Year Particulars ended on ended on ended on ended on ended on 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) 7,592.12 Total income from operations 9.968.75 8,137.15 9,694.89 41,192.50 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 482.90 474.99 970.46 1,647,59 77.43 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax 482.90 77.43474.99 970.46 1,554.91 (afterExceptional and/or Extraordinary items) 370.02 53.59 307.73 711.17 1,068.09 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 409.55 1,070.69 Total Comprehensive Income for the period 53.02 751.59 297.78 Comprehensive Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income 157.32 Paid up Equity Share Capital (face value 157.32 157.32 157.32 157.32 of Rs. 2/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserve 17,844.00 17,159.50 (as per audited Balance Sheet as at 31st March) Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) 4.70 0.68 Diluted 4.70 3.91 9.04 14.76

- 1. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 30, 2024. These Financial Results for the quarter/year ended March 31,2024 are available on the Bombay Stock Exchange Website-www.bseindia.com and on the Company's Website-www.Himteknoforge.com.
- The company is engaged in a single business segment "Manufacturing of Auto Components". The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS), in pursuance to the
- provisions of section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India. Corresponding figures of the previous quarter / year have been regrouped and reclassified to make the same comparable
- with the current period figures, wherever considered necessary.
- 5. The figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the financial year.

On behalf of Board of Directors Him Teknoforge Limited

PLACE: Chandigarh Jt. Managing Director DATED: 30.05.2024 (DIN No. 00094198)

### DIGISPICE

### **DiGiSPICE Technologies Limited** Registered Office: JA-122, 1st Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi -110025

CIN: L72900DL1986PLC330369

Tel.: 011- 41251965; Email: complianceofficer@digispice.com; Website: www.digispice.com

## Postal Ballot Notice

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, and other circulars in continuation thereof latest being the General Circular 09/2023 dated 25th September 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs and any other applicable Laws, Rules, Regulations, Circulars and Guidelines, if any, below mentioned business(es) are proposed for consideration by Members of DiGiSPICE Technologies Limited (the 'Company') for approval by passing the resolution(s) through Postal Ballot by voting through electronic means ('remote e-voting') only:

Item Resolution Description of the Resolution

No.	Resolution	Description of the Resolution
1.	Special Resolution	Approval for appointment of Mr. Venkatramu Jayanthi (DIN 08918442) as Whole Time Director of the Company and remuneration payable to him.
2	Special Resolution	Approval for making investments, extending loans and giving guarantees or providing securities under Section 186 of the Companies Act, 2013.
3	Special Resolution	Approval of the authorization to Board of Directors for extending loans and giving guarantees or providing securities in connection with loans to persons specified under section 185 of the Act.
4	Ordinary Resolution	Approval for holding of office or place of profit by Mr. Dilip Modi (00029062). Director of the Company.
5	Special Resolution	Approval for revision in remuneration of Mr. Rohit Ahuja (DIN: 00065417) Executive Director of the Company.

The Company has completed sending of Notice to the Members whose name was appearing in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 24th May, 2024 ('Cut- off date'), at their email addresses, registered with MAS Services Limited, the Company's Registrar and Transfer Agents ('RTA') or Depository participant(s). Members, whose names are appearing in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the Cut-off date, shall be eligible to cast their votes through remote e-voting in accordance with the process specified in the Notice. The voting rights of the Members shall be in proportion of their shareholding to the total issued and paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off date.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') for the purpose of providing remote e-voting facility to its Members. Remote e-voting shall commence from Friday, 31st May, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and end on Saturday, 29th June, 2024 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting facility shall not be allowed thereafter. Any members, who have not received the Notice due to any reason, or whose E-mail IDs

are not registered with the Depositories or the RTA, may write email to the Company at investors@digispice.com or the RTA at investor@masserv.com. The Notice can also be downloaded from the website of the Company (www.digispice.com); NSDL (www.evoting.nsdl.com); BSE (www.bseindia.com) or NSE (www.nseindia.com). In case of any grievances/queries related to e-voting, members are requested to refer FAQs and

or may contact RTA at 011-26387281, 82, 83 or investor@masserv.com. The result of the Postal Ballot will be announced within two working days from the last day of voting. The said result along with Scrutinizers Report will be uploaded on the website of the Company (www.digispice.com), NSDL (www.evoting.nsdl.com), BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). The result will also be displayed at the Registered Office and the Corporate

e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or

Ruchi Mehta

JFC FINANCE (INDIA) LIMITED CIN:U74899DL1995PLC072767

Registered Office: P-32, Lower Ground Floor, South Extension Part-II, New Delhi-110049 Email: contact@jfcindia.com Audited Financial Results for the Fourth Quarter and Financial Year Ended on March 31, 2024 [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing and Other Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 SEBI (LODR Regulations)]

(Rs. in "000" except per share data & ratios) Year Ended Previous year ended **Particulars** March 31, 2023 March 31, 2024 (Audited) (Audited) Total Income from Operations 99.910 2,56,433 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) 47,418 18,024 Net Profit / (Loss) for the period before tax 47,418 18,024 (after Exceptional and/or Extraordinary Items#) Net Profit / (Loss) for the period after tax. 13,704 (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) (35,070)59,650 1,65,417 1,65,417 Paid up Equity Share Capital 8,46,879 8,81,949 Other Equity 7,53,935 7,08,100 Net worth Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 2,50,000 2,50,000 Outstanding Redeemable Preference Shares 1,31,500 1,31,500 N.A Debt Equity Ratio N.A. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -13.51 4.04 10.25 3.05 N.A. N.A. Capital Redemption Reserve Debenture Redemption Reserve N.A Debt Service Coverage Ratio N.A

16. Interest Service Coverage Ratio N.A. (Rs. in "000" except per share data & ratios Part B: Consolidated Year Ended revious year ender **Particulars** March 31, 2024 March 31, 2023 (Audited) (Audited) 1,70,284 3,05,279 Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. 28,487 Exceptional and/or Extraordinary items#) (2,427)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) 28,487 (2,427)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) 24,138 (6,776)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) (56,768) 39,170 and Other Comprehensive Income (after tax)) Paid up Equity Share Capital 1,65,417 1,65,417 Other Equity 6,94,214 7,38,970 4,41,670 4.17.123 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 2,50,000 2,50,000 Outstanding Redeemable Preference Shares 1,31,500 1,31,500 Debt Equity Ratio N.A. N.A Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -7.12 Basic: (6.04) 5.40 (4.55)Diluted: Capital Redemption Reserve N.A. NA N.A. Debenture Redemption Reserve N.A Debt Service Coverage Ratio Interest Service Coverage Ratio

### 1. The above is an extract of the detailed format of Annual Audited Financial Results for the fourth Quarter and financial year ended on March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation

52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Audited financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed There has been no change in accounting policies followed during the quarterlyear ended 31st March, 2024 as compared to the preceding financial year ended March 31, 2023 and has been prepared in accordance

with Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulrements) Regulations, 2015.


Directors at their meetings held on 30.05.2024. The Statutory Auditors of the Company has done the audit of financial statements of the Company. The Company is Non-Banking Financial Company and primarily Carrying on the business and making

The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of

- investments. All the activities of the Company revalue around the primary business, as such there are no separate reportable segment as per S 17 on 'Segment Reporting'
- Figures for the previous periods / years have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the ourrent period /years classification / disclosure

For JFC Finance (India) Limited

Sunil Kumar Place: New Delhi Whole Time Director Date: 30/05/2024



ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನ್ ಹೋಮ್ ಲಿ.

**Can Fin Homes Limited** No. 29/1, 1st Floor, Sir M N Krishna Rao Road Near Lalbagh West Gate, Basavanagudi, Bengaluru - 560 004

E-mail: compsec@canfinhomes.com Tel: 080 48536192, 080 41261144 Fax:080 26565746 Web: www.canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699 NOTICE

### (Information to Equity Shareholders of the Company) Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of

Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) (Accounting, Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016 as amended from time to time, the dividend declared during the financial year 2016-17 i.e, on June 28, 2017, which remained unclaimed for a period of seven years, will be due for transfer to IEPF. The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of Court/ tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the said Rules read with amended Rules, 2021. In compliance of the said Rules, the Company has communicated

individually to the concerned shareholders and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on our website. Shareholders concerned may refer to 'Investor' page on our website: www.canfinhomes.com to verify their Name, folio/DPID-Client ID and unclaimed dividend amount. Shareholders are requested to claim the dividend declared during the financial year 2016-17 and subsequent years, if any, by **June 27, 2024** before the same is transferred to the IEPF.

shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing a new share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the new share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF Authorities. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF In case the Company does not receive any communication from

be constrained to transfer the Dividend 2017 amounts to the IEPF by the due date in compliance of the said rules. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of

unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

For any queries on the above matter, please contact the Company's Registrar & Share Transfer Agents, Mr. B S Naidu, Manager at M/s Canbank Computer Services Ltd., Tel: + 91 80 23469661 or send e-mail to naidu@ccsl.co.in or investor.relationship @canfinhomes.com

Nilesh Jain

financialexp.epapr.in

Office of the Company.

Date: 30th May, 2024

Place: Noida

call on: 022 - 4886 7000 or 1800 1020 990 or 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in

For DiGiSPICE Technologies Limited

New Delhi

Place: Bengaluru

Date: 30/05/2024

Company Secretary and Compliance Officer

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose

Rajiv Aggarwal

the concerned shareholders, by June 27, 2024, the Company will

For Can Fin Homes Limited

DGM & Company Secretary

जनसता

(a) **pnb** Housing

inance Limited

31 मई, 2024

市 被信任 可误作	, पीएनबी हात पाय 111 की ो किए जाने व लाथ संबंधित गिन अपेक्षित में प्रान्य की जार्त प्रान्य आर्थित प्राप्त आर्थित प्राप्त आर्थित प्राप्त आर्थित प्राप्त आर्थित ता है, जिसके प्राप्त आर्थित	उत्तर फाइनस (लॉमटेड इसमें आर्ग पीएनकी बारा 13(2) अधीन मांग सुचेना जारी की थी। उठ है वारण, भारतीय रिजर्व बैंक ∕ राष्ट्रीय आवास है। बकाया राशि नीचे दी गड़ है। आगे, हमें का है है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएट रेतरों का कब्जा प्रान्त किया जाना शामिल है। उ तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया गशि पीएनब से की देखी की सुचना के प्रकाशन की लिवि तर से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त	एचएफएल' के fa मांग सुचना । केंक्र के दिशानि रणों के आधार ए ज तथा अधिनिग त उक्त अधिनिग तापका ध्यान कि हिएचएफएल झ के ही कर संकर्त समझीते हारा प्र	अद्यंतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय     की धारा 13(2) के अधीन रूप में प्रवर्तन अधिनियम, 2002 कि अध्याय     की धारा 13(2) के अधीन रूप में वर्णित) ने वर्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरिनेमीण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इस रूम) प्राप्तिक अधिनायम, 2002 (इस रूम) प्राप्तिक अधिनायम, वर्षित के प्रवर्गित के अपित के प्रवर्गित के अपित के प्रवर्गित के उपित के प्रवर्गित के अधित के प्रवर्गित के जा रही है जो रूप होंगित एवं मा में में में मूल में के जा रही है जो स्वर्गित एवं मा में में मूल प्रकाशित की जा रही है जो में	में आर्ग 'अधिनय इपका खाता, कि ब्याज इत्यादि के साकि उक्त अधि भीतर पीएनबीए इडी करेगा, जिसन (a) के प्रावधान आमंत्रण द्वारा अ	म' के रूप में वर्णित) के रूतों / ब्याज का भुगतान में की यह कुक भुगतान में की यह कुक नैयम की घारा (अं2) के बएफएल को जदा करने के के जूदारी तथा गारटरें की और आमंत्रित किया क्या गएर समझीते डार
क्र. स.	ऋण	उधारकर्ता और	फ्रांटर का नाम और पता	बंधक	मांग सृचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
12	005615, बी.आ.	श्री ग्रिय रंजन सिंह पुत्र श्री राज नारायण सिंह, और श्री मनीष सिंह पुत्र श्री सिंह, पताः निवास स्थान 302, रामाच्या एन्वलेव, 8वां क्रॉस, दूसरा मेन, पाई लेजाउट, बँगलुरु—560016, और पलेट नबर बी—9/9129, बसत कुंज, नई दिल्ली, दिल्ली—110070, फ्लैट नंबर बी2 ई0306, तीसरी मजिल, पश्मीना बुकवुबस, कम्मासंद्रा, बिदराइल्ली होबली, कंआर परम डोबली.	NA .	अनुसूची "ए" संपत्ति (संयुक्त संपत्ति का विवरण) संपत्ति का वह पूरा टुकडा, जिस पर बिदराहरूली पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नया खाता संख्या 48,48,50 और 51 है (पंचायत संख्या 24, 26 गुंटास, पंचायत संख्या 23/1, 2 एकड़ 7 गुंटास, पंचायत संख्या 22/1 और 22/2 4 एकड़ और पंचायत संख्या 22/3, 3 एकड़ 15 गुंटास, कुल मिलांकर 10 एकड़ 8 गुंटास) (लगभग 444312 वर्ग फीट) भूमि, जिसे कृषि से गैर-कृषि आवासीय छंडाय के लिए परिवर्तित किया गया है, कम्मासंद्रा गांव, बिदराहरूली होबली, बेंगलुरु पूर्व तालुका में रिखत है और पूर्व में सड़क पंछियन में सड़क संख्या 25, 28 और 27, उत्तर में सड़क संख्या 20 और 21, दक्षिण में बयाप्पनहल्ली गांव की सीमा से चिरा है। अनुसूची "सी" संपत्ति अनुसूची ए संपत्ति में 157 वर्ग फीट के बराबर अविभाजित हिस्सा, अधिकार और हित। अनुसूची "सी" संपत्ति (निर्माण किया जाने वाला अपार्टमेंट) मंजिल 03 पर नंबर बीट्रई0306 वाले पलेट का वह पूरा टुकड़ा जिसमें एक बेडरूम, हॉल, रसाई है। प्रभीना बक्ववर नामक इमारल में 526 वर्ग फीट के सपर बिल्ट अप एरिया के साध एक कहर्य कार पार्क का	13.05.2024	13.05.2024 तक रु. 15,85,614/- (रुपये पन्द्रह लाख पिच्वासी हजार घह सी चौदह मात्र)

पंजी, कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के,जी,मार्ग, नई दिल्ली–110001,

फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

जयानगर शास्त्रा:--1125 / 12, भूतल, हम्पी नगर, विजयानगर, बेंगलुर--580104

SMFG Grihashakti

(सूचनाओं) की सामग्री यहां नीचे दी गई है:

ाराना मदास रोड, बेंगलुरु-562129

स्थान : जयानगर, दिनांकित : 31-05-2024

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) कॉर्पोरेट कार्यालय : 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इसपॉयर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांब्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांब्रा (ई), मुंबई- 400051 महाराष्ट्र पंजीकृत कार्यालय : मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई-600095

निर्माण अनुसूची ए संपत्ति पर किया जाना है।

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पूनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ) **(एसएमएफजी आईएचएफसीएल)** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस के प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भूगतान करने का कहा किया गया है। अधोहस्ताक्षरी यथोचित रूप से मानते हैं कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस (सूचनाओं) को प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा को चिपकाकर और प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग नोटिस

क्रं सं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम,संपत्ति धारकों जैसा भी मामला हो	प्रतिभूति संपत्ति/बंधक संपत्ति का विवरणः	धारा 3(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख और कुल बकाया
1.	लैनः 609139511183795  1. हितेश यादव  2. लता देवी  3. सुशीला देवी  पताः 124, बीएसएनएल टावर के पास, जरही हरसरू (46), गुड़गांव— 22 505	वाका सिवाना, गढ़ी हरसरू उप—तहसील : हरसरू जिला गुरुग्राम हिरयाणा में स्थित प्लॉट क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, खेवट/खाता संख्या 304—306—307, एमयू संख्या 36, किला संख्या 2/2 (1—12), 3/1 (7—0), 6/1 (4—18), 6/2 (5—1) 8 (7—3), 9/1 (1—19), 26 (0—15), 4/2 (6—) ॄ 16), 7/1/1 (0—12), 7/2/1 (6—16), 14/2 (5—8) । प्लॉट की सीमाएं = पूर्व : अन्य की संपत्ति; =पश्चिम : अन्य की संपत्ति; = उत्तर : अन्य संपत्ति; =दक्षिण : 20 फीट चौड़ी सड़क,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु.10,93,929 / — (दस लाख तिरानबे हजार नौ सौ उनतीस रूपये मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
2.	लैनः 609139211321494 एवं 109139511371782 1. रघु कटारिया 2. नीलम कटारिया पताः एच. नं. 95 और 96 यूजीएफ, फ्रंट साइड ब्लॉक—एल, मोहन गार्डन,उत्तम नगर दिल्ली—110059.	गांव नवादा और कॉलोनी, जिसे मोहन गार्डन के नाम से जाना जाता है के क्षेत्र, ब्लॉक—एल एक्सटेंशन उत्तम नगर नई दिल्ली—110059 में स्थित छत के अधिकार के बिना निर्मित ऊपरी भूतल (सामने की ओर),संपत्ति संख्या 95—ए और 96 पर निर्मित, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज यानि 66.88 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 382 में से, साझा अधिकार के साथ प्रवेश / गेट, सीढ़ी का उपयोग करने के अधिकार, साझा अधिकार के साथ स्टिल्ट फ्लोर पर एक कार पार्किंग स्थान, भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार शामिल है इस प्रकार से घिरा हुआ है — पूर्वः सड़क 20 फीट; पश्चिमः संपत्ति संख्या 95—ए और 96 का भाग; उत्तरः प्लॉट सं. 97; =दक्षिणः प्लॉट सं. 94	दिनांकः 11.05.2024 10.05.2024 के अनुसार रु. 32,21,216/— (रुपये बत्तीस लाख इक्कीस हजार दो सौ सोलह मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
3.	लैनः 609139211487083 1. संजीव कुमार 2. मीना गुप्ता पताः सी–5 / 24, यूजीएफ, यमुना विहार दिल्ली —110053	गंव निम्मी विहार साईं रेजीडेंसी में स्थितः इलाहाबास परगना और तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर यूपी — 201 301 में फ्री होल्ड, 2" तल, रिहायशी एचआईजी फ्लैट नंबर 201 और 202 बाएं हाथ की ओर, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर खसरा नंबर 322, प्लॉट नंबर 101, ब्लॉक—बी पर निर्मित, चौहद्दी = पूर्वः अन्य संपत्ति; = पश्चिमः प्रवेश / सड़क 20 फीट; उत्तरः ज्योति की संपत्ति; दक्षिणः फ्लैट नंबर 203 और 204 और महेंद्र की संपत्ति।	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 35,53,401/— (रुपये पैंतीस लाख तिरपन हजार चार सौ एक मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
4.	लैनः 609107210468609 1 . राजेश कुमार कश्यप 2. मंजू रानी पताः एच. नं. 176, गली नं. 8, जी–5 ब्लॉक,सोनिया विहार, दिल्ली–100018	डीआईएफ, अंकुर विहार, लोनी गांव ,परगना और तहसील, जिला गांजियाबाद—201 102 में स्थित फ्लैट बियरिंग नंबर जीएफ—3 भूतल पर बिना छत के अधिकार के, दाहिने हाथ की पिछली तरफ "उक्त मंजिल" आवासीय प्लॉट नंबर एल पर बी—4/12, क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 14,98,217 / — (चौदह लाख अड्डानवे हजार दो सौ सत्रह रूपये मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
5.	लैनः 605438011123773 और 111239511316289 1 . नरेश कुमार , 2. पवित्रा देवी 5. दौलत राम पता : डी—198, महेंद्र एन्क्लेव, शास्त्री नगर गाजियाबाद—201002	स्वर्ण जयंती पुरम, गाजियाबाद—201 013 में स्थित आवासीय द्वितीय तल, क्षेत्रफल 104 वर्ग मीटर, भूखंड संख्या डी—335 पर निर्मित,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 43,57,782/— (रु. तैंतालीस लाख सत्तावन हजार सात सौ बायसी मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
6	लैनः 610839211096656 1.रमेश चंद सैनी पुत्र, राम चंद्र सैनी, 2.सविता सैनी पत्नी, रमेश चंद सैनी पता : ओरंग शाह पुर, गोलाबाद,	औरंगशाहपुर, गोलाबार (पुष्प विहार) मेरठ में स्थित आवासीय प्लॉट जो प्लॉट नंबर 7 का भाग—5 है, जिसका माप 52 वर्ग गज या 47.55 वर्ग मीटर है, जिसमें खसरा नंबर 396डी शामिल है। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं — पूर्वः 20'7"/ प्लॉट, जो प्लॉट नंबर 7 का भाग—6 है; पश्चिमः 21'7'/ रोड; = उत्तरः 22'5"/ प्लॉट, जो प्लॉट नंबर 7 का भाग—4 है; दक्षिणः 22'5"/ मंदिर।	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 6,48,945 / — (छह लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पैंतालीस रुपये

उधारकर्ता(ओं) को एतद्दवारा सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस (सूचनाओं) का पालन करें और इसमें एवं इसके ऊपर उल्लिखित मांग राशि के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें। उधारकर्ता यह नोट करें कि **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल, एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणी द्वारा ली गई ऋण सुविधा अचल संपत्ति / संपत्तियों के प्रति एक सुरक्षित ऋण है जो उधारकर्ता (ओं) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति (ओं) का कब्जा शामिल है, लेकिन बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने और भुगतान की वसूली तक सीमित नहीं है। **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को संलग्न और /या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल को भी बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी आईएचएफसीएल को देय देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता (ओं) को **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को बेचने या पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य) कार्य) के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने या डीलिंग करने से प्रतिबंधित किया / रोका जाता है। और उपर्युक्त का गैर अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : गुरुग्राम हरियाणा / नई दिल्ली, जी बी नगर / गाजियाबाद / मेरठ, उत्तर प्रदेश, दिनांकः 11.05.2024

फजलपुर, बाला जी मंदिर के पास,

मेरठ-250002

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड )

हस्ता /- अधिकृत अधिकारी

एनपीए दिनांकः 07.05.2024

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

### पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com (a) pnb Housing नोएडा शाखाः— पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, डी–2, सेक्टर – 3, नोएडा (यूपी)–201301 प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पृटित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और

प्नरनिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना पुनरिनर्मीण एवं प्रतिमृति हिंत प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना हम, पीएनबी हाउसिंग फ़ाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनरिनर्माण एवं प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनयम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदार / गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों / व्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजव बैंक / राष्ट्रीय आवास बेंक के दिशानिदेशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्त आपके हारा मूलचन प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसािक उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपिकृत भी है। एतदद्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्यामृत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिक है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनरिनर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की और आमंत्रत किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निवेदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभृत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके परचामृत आस्तियों के हक्तार नहीं होंगे। आगे, आप के ऊर्पर, उक्त अधीनयम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नही किया जाता है, तो आप उसके परचार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है। आप के ऊपर एक अधीनयम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पर्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है। आप के उपरोक्त से अधीनयम के धारा 13(1

क्र. स.	खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
	बी.ओ. नोएडा	श्री दीपक रमानी और श्रीमती माया वाशु रमानी पता:1— 23 सी / 05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93 ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 पता:2—अपार्टमेंट नंबर—204,टॉवर नंबर—19, ग्रीनपोलिस्, सेक्टर—89 में स्थित, गुड़गांव—मानेसर के मास्टर प्लान में, गुड़गांव, हरियाणा—122505. श्री दीपक रमानी पता:3—यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.		अपार्टमेंट नंबर—204, टॉवर नंबर—19,ग्रीनपोलिस्, सेक्टर—89 में स्थित, गुड़गांव—मानेसर के मास्टर प्लान में, गुड़गांव, हरियाणा—122505.		15.05.2024 तक रु.97,80,060.46 / — (रुपये सत्तानवे लाख अस्सी हजार साठ और छियालीस पैसा मात्र)
	8438	श्री दीपक रमानी और श्री वाशु कन्हैयालाल चोइथ रमानी पता:1— 23 सी/05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93 ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. पता:2— 718, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नंबर ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 श्री दीपक रमानी पता:3—यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.		718, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नं. ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301.		15.05.2024 तक रु.28,40,773.12/— (रुपये अड्डाइस लाख चालीस हजार सात सौ तिहत्तर और बाहर पैसा मात्र)
	051//383 644, बी.ओ. नोएडा	श्री दीपक रमानी और श्री वाशु कन्हैयालाल चोइथ रमानी पता:1— 23 सी / 05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. पता:2— 719, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नंबर ए2 / 2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. श्री दीपक रमानी पता:3— यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.	NA NA	719, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नं. ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. कृत अधिकारी, वास्ते पीएनव		15.05.2024 रु.26,57,835.58 / — (रुपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ पैंतीस और अहावन पैसा मात्र)

## DIGISPICE

### डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः जेए-122, पहली मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए, जसोला, नई दिल्ली - 110025 सीआईएन: L72900DL1986PLC330369

टेलीफोनः 011-41251965, ईमेलः complianceofficer@digispice.com; वेबसाइटः www.digispice.com

### डाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, एवं इसकें अनुक्रम में अन्य परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र 09 / 2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023, एवं किसी अन्य लाग् कान्न नियम, विनियम, परिपत्र तथा दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुपालन में डिज़िस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों के विचार हेतु निम्न उल्लिखित व्यवसाय(ओं) पर, डाक मतपत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से ('रिमोट ई-वोटिंग') संकल्पों का अनुमोदन कर पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है:

मद संख्या	संकल्प	संकल्प का विवरण
1.	विशेष संकल्प	श्री येंकटरामु जयंती (डीआईएन 08918442) को कम्पनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने एवं उन्हें देय पारिश्रमिक का अनुमोदन
2,	विशेष संकल्प	कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 186 के अंतर्गत निवेश करने, ऋण देने, गारंटी देने या प्रतिभूतियां प्रदान करने हेतु अनुमोदन
3.	विशेष संकल्प	अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण देने, ऋण के संबंध में गारंटी देने या प्रतिभृतियां प्रदान करने हेतु निदेशक मंडल को प्राधिकरण का अनुमोदन
4.	साधारण संकल्प	कम्पनी के निदेशक श्री दिलीप मोदी (डीआईएन 00029062) द्वारा लाभ का पद या स्थान धारण करने का अनुमोदन
5.	विशेष संकल्प	कम्पनी के कार्यकारी निदेशक श्री रोहित आहूजा (डीआईएन: 00065417) के पारिश्रमिक में संशोधन का अनुमोदन

कम्पनी ने उन सदस्यों, जिनका नाम शुक्रवार, 24 मई, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों की सुची में दर्ज था, को कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), मास सर्विसेज लिमिटेड, या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत उनके ईमेल पतों पर सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रिजस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हैं, वे सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि पर कम्पनी की कुल जारी और प्रदत्त समता शेयर पूँजी में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगी।

कम्पनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 31 मई, 2024 को 9.00 बजे पूर्वीह (आईएसटी) से आरम्भ होगी और शनिवार, 29 जून, 2024 को 5.00 बजे अपराह (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी सदस्य, जिन्हें किसी भी कारण से सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, या जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी अथवा आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी को investors@digispice.com या कम्पनी के आरटीए को investor@masserv.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सूचना को कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com); एनएसडीएल (www.evoting.nsdl-com); बीएसई (www.bseindia.com); या एनएसई (www.nseindia.com) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत / प्रश्न के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित करें या 022 - 4886 7000 अथवा 1800 1020 990 अथवा 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या आरटीए से 011-26387281, 82, 83 अथवा <u>investor@masserv.com</u> पर संपर्क करें।

डाक मतपत्र का परिणाम मतदान की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com), NSDL (www.evoting.nsdl.com), बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) पर अपलोड किया जाएगा। परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

कृते डिज़िस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

रूचि मेहता

कम्पनी सविव एवं अनुपालन अधिकारी

केन फिन होम्स लि. शॉप नं. ४, चतुर्थ तल, एस.एल. टॉवर, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कामर्शियल बेल्ट, अल्फा—१, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन—201308 CIN: L85110KA1987PLC008699, ई—मेल: greaternoida@canfinhomes.com मोबाइल सं : 7625079164, 0120—4569974

### कब्जा सूचना [नियम ८(१)] अचल सम्पत्ति के लिए

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने **केन फिन होम्स लिमिटेड,** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के तहत धारा 13(2) के तहत नियम के 3 के साथ पिठत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **05.03.2024** को जारी की थी जिसमें कर्जदार श्री योगेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार एवं श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री योगेश कुमार से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु. 23.88.577 / – (रुपए तेईस लाख अटटांसी हजार पाँच सौ सतहत्तर मात्र) और ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदुद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे

वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 24 मई 2024 को प्राप्त कर लिया है। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार / रों, गारंटर / रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति

के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु. 23,88,577 / – (रुपए तेईस लाख **अट्ठासी हजार पाँच सौ सतहत्तर मात्र**) और उस पर आगे ब्याज के प्रभाराधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लैट सं एफएफ—1, प्रथम तल बैक साइड, प्लॉट सं. 118, शालिमार गार्डन एक्सटेंशन—1, गाजियाबाद 201012। संपत्ति की सीमाएँ निम्नानसार हैं:

उत्तरः फ्लैट सं. एफएफ—2 दक्षिणः प्लॉट सं. 117 पूर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः फ्लैट सं. एफएफ–4

तिथिः 30.05.2024 स्थानः ग्रेटर नोएडा

हस्ता. /-प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

## 🐠 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिभिटेड

निम्न लिखित ऋणी, सह-ऋणी व गारण्टर को सुचित किया जाता है सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत आपकी सम्पत्ति को एय स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा विक्रय किया जा रहा है। यदि आप द्वारा नोटिस दिनांक से ''7 दिवस'' के भीतर बंधक सम्पत्ति में रखा हुआ सामान नहीं हटाया जाता है तो उक्त सामान का बेचान अथवा अन्यत्र किरायाशुदा स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । जिसके हर्जे, खर्चे व स्थानान्तरण के दौरान होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे । सामान प्राप्त करने व इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र पर कॉल करें या नजदीकी शाखा में सम्पर्क करें।

ऋण खाता संख्या एवं ऋणी / सह-ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	सम्पर्क सृत्र
खाता संख्या : L9001060126806972 सेतिया ट्रेडर्स ( ऋणी ), पंकज सेतिया ( सह-ऋणी ), श्रीमती सुनीता सेतिया ( सह-ऋणी )	संपत्ति स्थित खसरा नं. 558/78-84, सम्पत्ति नं. एक्स/1974, दुसरी मॉजल सीलिंग लेवल तक, गली नं. 07, राजगढ़ एक्सटेंशन, गांव-घोंदली, इलका-शाहदरा, दिल्ली क्षेत्रफल 58.52 वर्ग मीटर	प्रतीक खत्री 8130079830
खाता संख्या : L9001060713621881 ऑकिंड किड्स पैराडाईज एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सैकेटरी अरूण गोयल (ऋणी ), दिनेश गोयल पुत्र ग्यासी राम गोयल (सह-ऋणी ), श्रीमती चारू गोयल पत्नी अरूण गोयल (सह-ऋणी ), अरूण गोयल पुत्र दिनेश गोयल (सह-ऋणी ), श्रीमती परमिला देवी पत्नी दिनेश गोयल (सह-ऋणी ), नितिन गोयल पुत्र दिनेश गोयल (सह-ऋणी )	(1) संपत्ति स्थित बृथ नं. 108, सेक्टर 55, बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 243 वर्ग फीट (2) संपत्ति स्थित मकान नं. एमसीएफ 37, मुस्तिकल नं. 78, किला नं. 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, इटीसी., गली नं. 02, जैन कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा, क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट	ललित गौड़ 8130304226

दिनांक- 30-05-2023 S/d प्राधिकृत अधिकारी स्थान - दिल्ली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



दिनांक: 30 मई 2024

स्थानः नोएडा

CIN No.: L45201DL1983PLCO17225

पंजीकृत कार्यालय : 118, ऊपरी प्रथम तल, प्रकाश दीप , 7, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 23353051, 23353052,

ईमेल : info@ansalabl.com वेबसाइट : www.ansalabl.com

# 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के स्टैंडएलोन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों से लिये गए उद्वरण

		स्टैंडएलोन				समेकित					
क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		41	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
सं	विवरण	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	360.09	2,381.00	548.57	4,297.07	2,706.75	367.14	2,489.32	553.75	4,416.24	3,560.74
2	अवधि के लिये शुद्ध लाम / (हानि) (कर एव असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले )	(320.86)	1,536.50	267.69	1,449.39	133.36	(292.07)	1,625.53	265.34	1,527.11	122.15
	कर के पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद )	(320.86)	1,536.50	267.69	1,449.39	133.36	(292.07)	1,625.53	265.34	1,527.11	122.15
	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद )	(256.03)	1,021.11	39.16	911.36	(104.87)	(772.17)	1,622.19	36.59	962.88	(116.76)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद)	(283.67)	983.08	38.34	836.42	(77.03)	(604.88)	1,646.59	(110.82)	1,375.78	(254.15)
6	समतुल्य अंश पूंजी	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38
7	आय प्रति शेयर (इक्विटी प्रति शेयर ₹10) 1. मूलमूत : 2. द्रव्य :	(3.47) (3.47)	13.83 13.83	0.53 0.53	12.34 12.34	(1.42) (1.42)	(6.80) (6.80)	21.80 21.80	(1.49) (1.49)	19.65 19.65	(3.82) (3.82)

अंकेक्षित वित्तिय परिणामों के लिए टिप्पणियां :

1. 30 मई 2024 को हुई बैठक में अंकेक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तिय परिणामों की समिक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए हैं, जो कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तिय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। उपरोक्त पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.ansalabl.com पर उपलब्ध है।

3. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10/-रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 1/-रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

 कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में जयपुर परियोजना से संबंधित ग्राहकों के लिये देय मूल धनराशि कि राशि पर ब्याज वापिस करने का प्रावधान किया है,जो कि ₹ 535.50 लाख है। बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से अंसल बिल्डवेल लि. हस्ता./-

> (शोभित चार्ला) पूर्णकालिक निदेशक DIN - 00056364

PARTAP INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Vill Beopror, G.T. Raod, Near Shambhu Barrier, Distt. Patiala, Punjab-140417, INDIA. CIN: L15142PB1988PLC008614, Email: partaplisting2017@gmail.com EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS

EOD THE OHADTED AND VEAD ENDED MADOU 34, 2024

SL. NO.	PARTICULARS	(INR in Lacs except per share data) STANDALONE						
		For the Quarter Ended			For the Year Ended			
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023		
1	Total Income from operations	8922.46	7007.22	7713.24	28495.77	38809.94		
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	486.08	59.45	(1,821.86)	453.69	2,782.63		
3	Total Comprehensive Income for the period	2,955.34	(120.80)	(1,647.77)	2,382.20	2,176.71		
4	Paid-up Equity Share Capital ( 32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each )	32.02	32.02	32.02	32.02	32.02		
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation							
	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97		
	(2) Diluted	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97		

	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97			
	(2) Diluted	92.29	(3.77)	(51.46)	74,39	67.97			
	(INR in Lacs except per share da								
	PARTICULARS	CONSOLIDATED							
SL. NO.		For the Quarter Ended			For the Year Ended				
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023			
1	Total Income from operations	7,959.17	10,126.16	8,846.17	37,984.48	44,207.63			
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	105.57	(376.37)	(2,215.39)	(631.98)	2,091.78			
3	Total Comprehensive Income for the period	2,585.45	(556.62)	(2,008.81)	1,307.15	1,518,36			
4	Paid-up Equity Share Capital ( 32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each & 8,00,000 Equity Shares of INR 100/- each )	40.02	40.02	40.02	40.02	40,02			
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation								
	(1) Basic	64.60	(13.91)	(50.19)	32.66	37.94			
	(2) Diluted	64.60	(13.91)	(50.19)	32.66	37.94			

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and year ended 31st March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone. and Consolidated Financial Results are available on the website of www. msel.com and on

the Company's website at www.partapdenim.com For Partap Industries Limited Date: 30.05.2024 Sudarshan Paul Bansal Chairman & Managing Director Place: Kolhapur

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30.05.2024